

प्रेस नोट

दिनांक 27.03.2021

सराहनीय कार्य एसओजी व थाना गौरीगंज जनपद अमेठी

अवैध अपमिश्रित देशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, 532 शीशी शराब, 01 ड्रम में 200ली0 अपमिश्रित शराब, 40ली0 शराब बनाने का केमिकल, 164 खाली शीशी, 431 ढक्कन, 04 बण्डल टेप, 250 ग्राम कलर कुल 07 पेटी 06 बोरियों में बरामद ।

जनपद अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अभियान के क्रम में अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध अपमिश्रित शराब के बिक्री के विरुद्ध अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.03.2021 को उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना गौरीगंज मय हमराह व एसओजी टीम अमेठी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व वाहन चेकिंग के दौरान बरनाटीकर के पास एक विक्रम टैम्पो संख्या यूपी 44 टी 1899 चालक कृष्ण सागर तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी नि0 मूरता का पुरवा मजरे गुवावा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को पकड़ा गया । जामा तलाशी से 07 गत्ते में कुल 283 शीशी अवैध अपमिश्रित शराब बरामद हुयी । पूछताछ में गिफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों का एक गैंग है दो जगहों पर मिलकर शराब बनाते हैं फर्जी रैपर लगाकर शराब बेचते हैं । अभियुक्त की निशानदेही पर थानाक्षेत्र जामो के गोरियाबाद गौतमगढ़ी में अभियुक्त 1.बाल गोविन्द पासी पुत्र जगदेव पासी नि0 गौतमगढ़ी गोरियाबाद थाना जामो 2.राहुल पासी पुत्र शिव प्रसाद पासी नि0 उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । घर की तलाशी से एक जर्किन में 40 लीटर शराब बनाने का केमिकल व 164 खाली शीशी, 431 ढक्कन बरामद हुआ । इसके उपरान्त थाना मोहनगंज में अभियुक्त रामसमुझ पासी पुत्र दानबहादुर पासी नि0 रामपुर मजरे औरी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के घर दबिश दी गयी जो मौके का फायदा उठाकर भाग गया । अभियुक्त रामसमुझ पासी के घर से एक ड्रम में 200 लीटर व 249 शीशी अवैध अपमिश्रित शराब बरामद हुआ । पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग आगामी होली त्यौहार व पंचायत चुनाव के अवसर पर कम लागत लगाकर अधिक रूपया कमाने के लिए अवैध अपमिश्रित शराब बनाकर जगह-जगह बिक्री कर रूपया कमाते हैं । फरार अभियुक्त का नाम राम समुझ पासी पुत्र दान बहादुर पासी रामपुर मजरे औरी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी । थाना गौरीगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी स्थान- बरनाटीकर/गोरियाबाद/रामपुर औरी

दिनांक- 26.03.2021

समय- 11:45 बजे

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. कृष्ण सागर तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी नि0 मूरता का पुरवा मजरे गुवावा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी । (चालक श्रीव्हीलर)
2. राहुल पासी पुत्र शिव प्रसाद नि0 गोरियाबाद थाना जामो जमपद अमेठी ।
3. बाल गोविन्द पासी पुत्र जगदेव पासी नि0 गौतम गढ़ी गोरियाबाद थाना जामो जनपद अमेठी ।

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

- राम समुझ पासी पुत्र दान बहादुर पासी रामपुर मजरे औरी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

- 532 शीशी अवैध अपमिश्रित शराब ।
- 01 ड्रम में 200 ली0 अपमिश्रित शराब ।
- 40 लीटर शराब बनाने का केमिकल ।
- 164 खाली शीशी, 431 ढक्कन, 04 बण्डल टेप, 250 ग्राम कलर ।
- एक अदद टैम्पो विक्रम संख्या यूपी 44 टी 1899 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज) ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 99 /21 धारा 419,420,467,468,471,272 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 संजय सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 विनोद कुमार यादव प्रभारी एसओजी जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. उ0नि0 प्रेमचन्द गौतम थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
5. हे0का0 प्रदीप मिश्रा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
6. का0 वीरेन्द्र कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
7. का0 विनय तिवारी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
8. हे0का0 सोनू यादव एसओजी जनपद अमेठी ।
9. हे0का0 मतलूब अहमद एसओजी जनपद अमेठी ।
10. का0 ज्ञानेन्द्र सिंह एसओजी जनपद अमेठी ।
11. का0 दिनेश कुमार यादव एसओजी जनपद अमेठी ।
12. का0 जितेन्द्र यादव एसओजी जनपद अमेठी ।
13. धीरेन्द्र कुमार एसओजी जनपद अमेठी ।